

स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न गाँवों में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन

आज दिनांक 18 दिसंबर 2020 को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत ग्राम करेली-करगेना, विकास खंड क्यारा, जनपद बरेली में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से कृषकों को ग्रामीण स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया तथा उनको स्वच्छता शपथ दिलाई। कृषकों को स्वच्छ रहने के लिए हाथ धोने के तरीकों को बताया तथा इस बात पर ज़ोर दिया कि वह खेतों में कार्य करते समय और विशेष रूप से कीटनाशकों के स्प्रे करने के समय सुरक्षा और स्वच्छता का किस प्रकार ध्यान रखें। इस अवसर पर 22 कृषक उपस्थित थे।



इसी क्रम में विकास खंड फतेहगंज पश्चिमी, जनपद बरेली में आयोजित जनपद स्तरीय किसान गोष्ठी में पर्यावरण की स्वच्छता के लिए जविक खेती तथा समेकितनाशी जीवप्रबंधन की तकनीकों को अपनाते हुये कृषि रसायनों के न्यूनतम अनुपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। गोष्ठी में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वच्छता, गृह व पशुशाला की सफाई तथा गाँव में स्वच्छता, विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गई तहत उन्हें अपनाने के लिए कृषकों को प्रेरित किया गया। कृषकों को कोरोना महामारी संबंधी सावधानीयां, मास्क पहनने एवं उसके निस्तारण के सही तरीके के बारे में, बार बार हाथ धोने की आवश्यकता तथा छोटे कृषि यंत्रों को एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने संबंधी सावधानियों के बारे में चर्चा की गई। इस अवसर पर हमीरपुर गाँव में डॉ अंबेडकर सामुदायिक केंद्र में कृषकों के सहयोग से साफ सफाई का कार्य भी किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विकास खंडों के 127 कृषकों ने भागीदारी की।

कार्यक्रम में कृषकों ने स्वच्छता तथा सामायिक फसलों पर नवीन तकनीकों के बारे में प्रश्न भी पूछे जिनका समाधान कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों द्वारा किया गया।

